



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2002/चैत्र 21, 1924

No. 96]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2002/CHAITRA 21, 1924

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

सं. यू-23013/01/02-एल डब्ल्यू.— ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा इंडियन एयरलाइन्स और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है। समिति का संघटन और विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

- (1) श्री पी. के. शर्मा
सलाहकार (आई आर),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
रेल भवन, नई दिल्ली-110001. सदस्य
- (2) श्री यू. एम. शंकर दास,
सचिव, इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन,
फ्लैट नं. 403, हारमोनी एपार्टमेंट्स,
ऑफिसर्स कालोनी, डाकघर आर. के. पुरम,
सिकन्दराबाद-500 556 (आंध्र प्रदेश) सदस्य
- (3) श्री बी. के. भिसे
उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय),
नई दिल्ली। सदस्य-संयोजक

2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

संबंधित प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित कार्यकलापों में ठेका श्रम पद्धति के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान में कामों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं :—

क्रम संख्या	कार्यकलाप	निम्नलिखित के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम, अहमदाबाद, गोवा, काकोचीन, गुवाहाटी, कोयम्बतूर, मंगलौर, वाराणसी स्थित प्रतिष्ठान।
1.	कागों रखरखाव और अग्निशमन	इंडियन एयरलाइन्स
2.	एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट और रनवे रखरखाव	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3.	समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।	

MINISTRY OF LABOUR

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th April, 2002

No. U-23013/01/02-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Airlines and Airport Authority of India. The composition of the committee and its terms of reference will be as under —

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Shri P K. Sharma,
Adviser (IR)
Railway Board, Ministry of Railways,
Rail Bhavan, New Delhi-110001 | Member |
| (2) Shri U M Shankar Das,
Secretary, Indian National Mine Workers' Federation,
Flat No 403, Harmony Apartments, Officers Colony,
P O R K Puram,
Secunderabad-500556 (AP) | Member |
| (3) Shri V K Bhise, Deputy Chief Labour Commissioner
(Central), New Delhi | Member-Convenor |

2 The terms of reference of the proposed committee would be as follows —

To study the working of contract labour system in the following activities in the respective establishments and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 —

Sl No	Activities	Establishments at Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Ahmedabad, Goa, Calicut, Cochin, Guwahati, Coimbatore, Mangalore, Varanasi and Pune of
1	Cargo Handling and Fire Fighting	Indian Airlines
2	Effluent Treatment Plant and Runway maintenance	Airport Authority of India

3 The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report at the earliest

T A SRINIVASAN, Secy

संकल्प

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

सं. यू-23013/02/02-एल डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा बोगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, थालगाँव, जिला बोगाईगाँव असम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे —

- | | |
|--|-------|
| (1) श्री सी. एच. खिस्ती, निदेशक (कार्मिक)
सैन्ट्रल कोल इण्डिया लिमिटेड,
10, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700 001 | सदस्य |
|--|-------|

- | | |
|---|--------------|
| (2) श्री एन. सुन्दरसन,
महासचिव,
साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ,
संख्या-306, श्री रंगा अपार्टमेंट्स, केयीज हाई स्कूल
के सामने, सिकन्द्राबाद-500 025 (आ.प्र.) | सदस्य |
| (3) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),
गुवाहाटी | सदस्य-संयोजक |

2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

“बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, धालगाँव, जिला बोंगाईगाँव, असम के प्रतिष्ठान में सामान के परिवहन और हैंडलिंग संबंधी कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कामों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन का प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।”

3. समिति का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 11th April, 2002

No. U-23013/02/02-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Bongaigaon Refinery and Petrochemical Limited, Dhallgaon, District Bongaigaon, Assam. The composition of the committee and its terms of reference will be as under —

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Shri C. H. Khisty, Director (Pers.),
Coal India Ltd.,
10, Netaji Subash Road,
Kolkata-700 001 | Member |
| (2) Shri N. Sundaresan,
General Secretary,
South Central Railway Mazdoor Union,
No. 306, Sri Ranga Apartments, Opp. To Keyes High School,
Secunderabad-500025 (A.P.) | Member |
| (3) The Regional Labour Commissioner
(Central), Guwahati. | Member-Convenor |

2. The terms of reference of the proposed committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs of transportation and handling of materials in the establishment of Bongaigaon Refinery and Petrochemical Limited, Dhallgaon, District Bongaigaon, Assam and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

3. The Headquarter of the Committee will be at Guwahati. The Committee should submit its report at the earliest.

T. A. SRINIVASAN, Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

सं. यू-23013/03/02-एल डब्ल्यू. — ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, पनवेल परिसर के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है। समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|---|--------------|
| (1) श्री पी. के. शर्मा,
सलाहकार (आई आर),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
रेल भवन, नई दिल्ली-110001 | सदस्य |
| (2) श्री सूर्यकान्त बागल,
महासचिव, हिन्द मजदूर सभा,
महाराष्ट्र राज्य परिषद,
ए-28, "विनीत नगर" बी पी टी स्टाफ क्वार्टर्स,
कालाचौकी, मुंबई-400033 | सदस्य |
| (3) उप श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),
मुंबई | सदस्य-संयोजक |

2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

"तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, पनवेल परिसर के प्रतिष्ठान में ए. सी. के रखरखाव तथा बागवानी संबंधी कार्यों/सेवाओं में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान में उपयुक्त कार्यों/सेवाओं में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

3. समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा। समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 11th April, 2002

No. U-23013/03/02-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation, Panvel Complex. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Shri P. K. Sharma,
Advisor (IR).
Railway Board, Ministry of Railways.
Rail Bhavan, New Delhi-110001 | Member |
| (2) Shri Suryakant Bagal,
General Secretary,
Hind Mazdoor Sabha,
Maharashtra State Council,
A-28, "Vinit Nagar" B.P.T. Staff Quarters,
Kalachowky, Mumbai-400 033 | Member |
| (3) Deputy Chief Labour Commissioner (C),
Mumbai. | Member-Convenor |

2. The terms of reference of the proposed committee would be as follows :—

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of A.C. maintenance and gardening in the establishment of Oil and Natural Gas Corporation, Panvel Complex and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970."

3. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report at the earliest.

T. A. SRINIVASAN, Secy.